



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929

No. 565]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 789(अ).—चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त चाय संवर्धन निदेशकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों) नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधनों, जिन्हें चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, के प्रारूप को ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि इस अधि- सूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिस तारीख को जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हुए किसी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को संबोधित किए जाएं।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का नाम चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त चाय संवर्धन निदेशकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) संशोधन नियम, 2007 है;

(2) ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को

प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त चाय संवर्धन निदेशकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1988 की अनुसूची में, —

(i) क्रम सं. 1 के सामने —

(क) पद के नाम से संबंधित कॉलम 1 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, —

“निदेशक (चाय संवर्धन) ग्रेड-I लंदन—एक, मॉस्को—एक, दुबई—एक”;

(ख) कॉलम 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात् :—

“3*

(2007)

*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन”;

(ग) कॉलम 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“12,000-16,500 रु. (अखिल भारत सेवाओं के ऐसे अधिकारी, जिन्हें उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान गैर-कार्य चालनात्मक चयन ग्रेड प्रदान किया गया है अथवा वे उक्त ग्रेड के पात्र बन गए हैं, भारत सरकार के निदेशक या समतुल्य रैंक का वेतनमान प्राप्त करेंगे)”;

(घ) कॉलम 12 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) पदोन्नति : 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में कम से कम सात वर्ष की सेवा वाले निदेशक (चाय संवर्धन) ग्रेड-II से।

(2) स्थानान्तरण : [पार्ष्विक स्थानान्तरण सहित/

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक संविदा सहित) : केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण कर रहे हों या जिन्होंने 10,000-15,200 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम पाँच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास चाय संवर्धन का पर्याप्त ज्ञान हो (प्रतिनियुक्ति पर आने वालों के लिए इसे वरीयता दी जाएगी और संविदा पर आने वालों के लिए यह अनिवार्य है) (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि तीन वर्ष की होगी)। संविदाओं पर नियुक्तियाँ सार्वजनिक रूप से की जाएंगी।

(3) सरकार की सहमति से चाय बोर्ड उक्त पदों की आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी नए स्थान पर ले जा सकेगा।

(ii) क्रम सं. 2 के सामने :

(क) पद के नाम से संबंधित कॉलम 1 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् —

“निदेशक (चाय संवर्धन) ग्रेड-II मुख्यालय”;

(ख) कॉलम 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“3*

(2007)

*कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन”;

(ग) कॉलम 4 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“10,000-15, 200 रु.”

(घ) कॉलम 12 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) पदोन्नति : उप निदेशक (चाय संवर्धन) से, जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम पाँच वर्ष सेवा की हो।”

(2) स्थानान्तरण : [पार्ष्विक स्थानान्तरण सहित/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधिक संविदा सहित)] : केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण कर रहे हों या जिन्होंने 10,000-15,200 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम पाँच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास चाय संवर्धन का पर्याप्त ज्ञान हो (प्रतिनियुक्ति पर आने वालों के लिए इसे वरीयता दी जाएगी और संविदा पर आने वालों के लिए यह अनिवार्य है) (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि तीन वर्ष की होगी)। संविदाओं पर नियुक्तियाँ सार्वजनिक रूप से की जाएंगी।

(2क) 10,000-15, 200 रुपए के वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले विपणन सम्पर्क अधिकारी का पार्ष्विक स्थानान्तरण।”

(3) सरकार की सहमति से चाय बोर्ड उक्त पदों की आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर या किसी नए स्थान पर ले जा सकेगा।

[फा. सं. टी-49014/1/2007-बागान (क)]

ओ. पी. आर्य, अपर सचिव

[टिप्पणी : मूल नियम भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 915(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 द्वारा संशोधन किया गया था]।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

GSR 789(E).—The following draft amendments to the Tea Board (Recruitment and Conditions of Services of Directors of Tea Promotion appointed by the Government) Rules, 1988, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section 2 of Section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 49 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification is made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft rules before expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called The Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Directors of Tea Promotion appointed by Government) Amendment Rules, 2007;

(2) They shall come into force on their final publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Tea Board (Recruitment and Conditions of Services of Directors of Tea Promotion appointed by the Government) Rules, 1988, —

(i) against serial number 1, —

(a) in column 1 relating to the name of the post, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

“Director (Tea Promotion) Grade-I London-One, Moscow-One, Dubai-One”;

- (b) in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“3*

(2007)

*Subject to variation depending on the work load”;

- (c) in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Rs. 12,000-16,500 (Officers belonging to All India Services, who have been granted or become eligible during their deputation tenure, for non-functional Selection Grade, shall get the pay scale of Director or equivalent rank of Government of India)”;

- (d) in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“(1) Promotion : from Director (Tea Promotion) Gr.-II in the scale of Rs. 10,000-15,200 with at least seven years service in that grade.

(2) Transfer : (including lateral transfer)/transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts or with at least five years service in the posts in the scale of Rs. 10,000-15,200 or equivalent and having sufficient knowledge of tea promotion (preferred for deputationists and essential for those coming on contract) (period of deputation/contract will be three years). Appointments on contracts would be from the open market.”

(3) Tea Board with the concurrence of the Government may shift the posts from one station to the other or to a new place as per requirement.

- (ii) against serial number 2 :

- (a) in column 1 relating to name of the post, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Director (Tea Promotion) (Grade-II Headquarters)”;

- (b) in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

“3*

(2007)

*Subject to variation depending on the work load”;

- (c) in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

“Rs. 10,000-15,200”

- (d) in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“(1) Promotion : from Deputy Directors (Tea Promotion) with at least five years service in that grade.

(2) Transfer : (including lateral transfer)/transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts or with at least three years service in the scale of Rs. 10,000-15,200 or equivalent and having knowledge of tea promotion (preferred for deputationists and essential for those coming on contract) (period of deputation/contract will be three years). Appointments on contracts would be from the open market.

(2a) Lateral transfer of Market Liaison Officer with at least five years service in the scale of Rs. 10,000-15,200”

(3) Tea Board with the concurrence of the Government may shift the posts from one station to the other or to a new place as per requirement.

[F.No.T-49014/1/2007-Plant(A)]

O. P. ARYA, Addl. Secy.

[Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry Number GSR 349(E) dated 15th March, 1988, and subsequently amended vide notification No. GSR 915(E) dated 24th October, 1989].